



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1622]
No. 1622]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2008/कार्तिक 27, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2008/KARTIKA 27, 1930

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2008

का.आ. 2683(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में मुन्द्रा से पंजाब राज्य में भठिण्डा तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड (गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एफ. ए. बाबी, सक्षम प्राधिकारी, मुन्द्रा-भठिण्डा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन परियोजना, एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड, आदिपुर केम्प आफिस, प्लॉट नं. 186, वार्ड नं. 3-बी, ठागोर रोड, आदिपुर-370 205, कच्छ (गुजरात), को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्वधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	गोविन्दपर	सर्वे नंबर 98 में नाला	00	07	42
		98	02	02	16
		71/2	00	02	02
		71/1	00	01	11
		72/2	00	03	76
		72/1	00	13	64
		76/3	00	03	81
		76/2	00	00	50
		76/1	00	00	50
		77	00	17	69
		83	00	57	24
		60/1	00	10	91
		85	00	11	42
		91	00	30	08
		5/1	00	33	97
		सर्वे नंबर 5/1 व 14/2 के बीच में ढामर रास्ता	00	24	40
		14/1	00	00	50
		12	00	02	38
2	हेदरवा	221	01	89	77
		137	00	35	24
		सर्वे नंबर 137 व 136/2 के बीच में ढामर रास्ता	00	07	45
		136/2	00	16	64
		139	00	46	74
		141/2	00	16	25
		142/1	00	07	20
		142/2	00	03	10
		सर्वे नंबर 221 व 124/3 के बीच में राज्य मार्ग	00	10	08
		124/3	00	09	44
		124/2	00	04	55
		124/1	00	01	42

तालुका : रापर		जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	बर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
2	देवरवा (जारी)	सर्वे नंबर 221 में नाला	00	08	33
		125	00	02	08
		सर्वे नंबर 125 व 221 के बीच में नाला	00	22	79
		116	00	01	52
		117	00	30	58
		106/2	00	02	27
		105/2	00	11	20
		104	00	09	56
		103/2	00	07	88
		102	00	18	97
		98	00	01	36
		83/1	00	13	00
		83/2	00	36	60
		80	00	05	30
		76	00	21	62
		75	00	09	74
		74/1	00	10	69
		74/3	00	16	87
3	सई	सर्वे नंबर 892 व 443/2 के बीच में डामर रास्ता	00	03	28
		443/2	00	13	84
		437	00	08	84
		438	00	16	99
		435	00	02	18
		439	00	08	18
		432	00	17	84
		431/1	00	07	19
		सर्वे नंबर 431/1 व 466 के बीच में नाला	00	05	89
		सर्वे नंबर 466 व 353 के बीच में कार्ट ट्रक	00	04	82
		353	00	09	34
		355	00	07	16
		356/1	00	00	26

तालुका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
3	सई (जारी)	357/2	00	09	14
		356/2	00	13	34
		362/1	00	01	12
		सर्वे नंबर 362/1 व 329 के बीच में कार्ट ट्रक	00	06	59
		329	00	12	65
		330	00	15	74
		338	00	04	63
		337	00	07	50
		186	00	04	63
		182/1	00	07	81
		181	00	07	14
		179	00	20	56
		195/1	00	00	74
		177/1	00	01	66
		177/2	00	04	15
		176	00	12	34
		165	00	20	48
		124	00	16	49
		123	00	06	36
		121	00	15	10
		120	00	10	91
		112	00	35	12
		111	00	06	13
4	किडीयानगर	571	00	07	70
		572	00	02	88
		569/1	00	16	02
		1318	04	20	18
		591/1	00	16	45
		591/6	00	10	42
		सर्वे नंबर 591/6 व 590/3 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	76
		590/3	00	04	88

तालुका : रामर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
4	किडीमानगर (जारी)	590/2	00	08	48
		589/3	00	04	13
		589/1	00	05	98
		585	00	15	71
		586	00	06	88
		583/1	00	07	07
		583/2	00	11	23
		सर्वे नंबर 583/2 व गाँव सीमा के बीच में नाला	00	49	76
		701/2	00	18	08
		701/1	00	22	16
		700	00	01	20
		685	00	43	24
		696/2	00	02	53
		695/1	00	00	28
		694/1	00	25	52
		693/2	00	07	48
		693/1	00	02	30
		691/1	00	11	51
		691/2	00	15	26
		691/4	00	03	49
		743	00	32	08
		811/1	00	07	74
		812/2	00	07	04
		947/2	00	05	11
		947/1	00	07	44
		948	00	09	44
		969	00	37	08
		967	00	38	50
		966	00	18	49
		994	00	14	38
		गाँव सीमा व सर्वे नंबर 1318 के बीच में ढामर रास्ता	00	09	41

तालुका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गोंव का नाम	सर्वे सँख्या	क्षेत्र फल		
1	2	3	हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
4	किडीयानगर (जारी)	1215	00	44	35
		1216	00	16	81
		1217	00	23	90
		1219/4	00	02	00
		1189/2	00	06	38
		सर्वे नंबर 1189/2 व 1188/2 के बीच में कार्ट ट्रक	00	09	41
		1188/2	00	01	92
		1187/2	00	07	32
		1187/1	00	14	95
		1186	00	17	47
5	बादलपर	29	00	08	21
		26	00	13	02
		21/1	00	01	08
6	छोटापर	92/4	00	11	12
		91/3	00	00	60
		91/2	00	14	86
		84	00	04	74
		83/2	00	14	09
7	वेकरा	71	00	00	66
		73	00	10	33
		81	00	32	89
		82	00	24	37
		129	01	00	13
8	भीमासर	944/1	00	20	82
		944/2	00	07	26
		945/1	00	10	81
		943/2	00	02	75

तालुका : रापर		जिला : कच्छ	राज्या : गुजरात		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
8	भीमासर (जारी)	946	00	34	88
		947	00	29	27
		951/3	00	17	58
		938/3	00	06	11
		938/1	00	06	83
		952	00	00	50
		938/2	00	07	05
		937	00	04	83
		913/1	00	05	03
		912/2	00	08	50
		909/1	00	09	97
		909/2	00	07	51
		910	00	02	85
		908/3	00	01	48
		908/4	00	00	26
		907	00	04	52
		906	00	01	10
		सर्वे नंबर 906 व 718 के बीच में नाला	00	07	03
		718	00	06	75
		2220/1 पै	00	50	19
		719	00	02	63
		सर्वे नंबर 719 व 720 के बीच में ढामर रास्ता	00	15	03
		720	00	20	13
		721	00	08	51
		723/2	00	00	50
		795/1	00	00	50
		722	00	07	28
		सर्वे नंबर 722 व 728/2 के बीच में कार्ट ट्रक	00	11	98
		728/2	00	09	84
		728/1	00	09	22
		729	00	15	97
		735/4	00	01	16

तालुका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
8	भीमासर (जारी)	790/1	00	45	42
		781/1	00	04	53
		781/2	00	03	59
		782	00	06	62
		780	00	08	96
		810/2	00	08	57
		810/1	00	09	39
		812/1	00	05	65
		814/2	00	14	49
		814/3	00	14	64
		826	00	23	19
		827/1	00	18	89
		828/1	00	07	37
		829	00	02	39
		836/3	00	03	73
		834/1	00	00	50
		834/3	00	01	30
		843/2	00	04	32
		843/1	00	00	50
		845/3	00	08	83
		845/1	00	04	92
		850/1	00	02	36
		853/3	00	05	61
		852/3	00	01	39
		855/2	00	04	41
		855/1	00	07	70
		856/1	00	15	14
		857/3	00	06	90
		857/2	00	29	79
		857/1	00	02	50
		841	00	01	54
		859	00	20	44

तालिका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			इक्डर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
8	भीमासर (जारी)	860/1	00	08	46
		सर्वे नंबर 2220/1 पै में नाला	00	01	70
		सर्वे नंबर 2220/1 पै में कार्ट ट्रक	00	02	94
		2191/1	00	10	71
		2190/2	00	03	09
		सर्वे नंबर 2190/2 व 2185/2 के बीच में नदी	00	04	98
		2185/2	00	10	96
		2185/1	00	03	75
		2183/2	00	09	23
		2182	00	04	07
		सर्वे नंबर 2182 व 2180/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	08	76
		2180/1	00	01	85
		2179/4	00	05	92
		2179/3	00	11	06
		2179/2	00	03	40
		2174/3	00	00	97
		2178/1	00	03	38
		2175/2	00	02	85
		सर्वे नंबर 2175/2 व 2173/1 के बीच में ढापर रास्ता	00	05	10
		2173/1	00	05	16
		2167	00	13	06
		2169	00	12	87
		2161/3	00	01	14
		2161/4	00	03	42
		सर्वे नंबर 2161/4 व 2154/2 के बीच में कार्ट ट्रक	00	03	16
		2154/2	00	02	92
		2154/3	00	01	50
		2152/1	00	12	30
		2151/1	00	00	90

तालुका : रापर		जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
4	5	6			
8	शोमासा (जारी)	2152/2	00	00	50
		2146/1	00	12	83
		2146/2	00	02	82
		2142/1	00	00	50
		2144/1	00	08	43
		सर्वे नंबर 2144/1 व 2123/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	61
		2123/1	00	01	79
		2130/2	00	02	40
		सर्वे नंबर 2130/2 व 2125/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	23	11
		2125/1	00	03	03
		2122/3	00	03	70
		2121/3	00	00	50
		2120/1	00	06	25
		2119/2	00	03	86
		2117/2	00	01	41
		2118	00	03	56
		2116/2	00	06	20
		2115/1	00	09	12
		सर्वे नंबर 2115/1 व 2106/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	04	73
		2105/1	00	03	56
		2112/2	00	01	69
		2110/1	00	03	78
		2110/2	00	02	27
		2107/1	00	36	72
		2211	00	13	73
		2210	00	00	50
		2209	00	03	53
		2055/4	00	00	53
		2056/2	00	03	44
		2055/6	00	03	92

तालुका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
8	भीमासर (जारी)	2055/8	00	05	10
		2058/2	00	07	48
		2054/6	00	05	97
		2054/5	00	06	20
		2053/5	00	12	82
		2052/2	00	05	61
		2052/1	00	00	50
		2052/5	00	02	86
		2051/2	00	08	24
		2050/2	00	00	55
		2050/3	00	09	75
		2049/4	00	04	25
		2049/3	00	02	15
		2049/2	00	11	22
		2048/1	00	07	65
		2046/2	00	05	91
		2045	00	09	57
		2044	00	00	50
		2043/1	00	11	61
		2041/1	00	04	01
		2041/2	00	04	06
		2040/2	00	40	56
		2038/5	00	00	50
		2038/4	00	04	60
		2038/3	00	01	79
		2038/2	00	07	70
		2037/4	00	06	67
		2037/2	00	02	83
9	लखागढ	120	00	00	36
		119	00	10	51
		96	00	27	06

तालुका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
9	लखागढ (जारी)	94	00	00	30
		93/1	00	16	20
		93/2	00	03	98
10	भंगेरा-जदुपूर	203	00	13	46
		202/1	00	03	70
		202/2	00	03	43
		सर्वे नंबर 202/2 व 212 के बीच में ओढा	00	04	39
		214/2	00	02	89
		214/1	00	17	87
		215/2	00	03	90
		सर्वे नंबर 215/2 व 225/2 के बीच में कार्ट ट्रक	00	05	52
		225/2	00	05	48
		225/1	00	12	12
		218/4	00	08	21
		219/1	00	00	36
		219/2	00	10	84
		220	00	03	38
		182	00	00	44
		181	00	06	55
		180	00	07	82
		सर्वे नंबर 180 व 241 के बीच में नाला	00	01	92
		241	00	26	41
		170/1	00	12	49
		171/1	00	06	30
		171/3	00	14	83
		171/4	00	03	46
		सर्वे नंबर 241 में मेटल्ड रास्ता	00	03	74
		142	00	15	53
		143/2	00	01	03
		141	00	10	75
		139	00	18	44

तालुका : रापर		जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
11	आदेसर	664	00	14	28
		663	00	04	56
		665/1	00	18	42
		656	00	17	78
		651/1	00	10	38
		650	00	10	38
		649	00	06	32
		646	00	07	62
		645/1	00	03	94
		645/2	00	08	11
		645/3	00	05	16
		644/3	00	03	00
		सर्वे नंबर 644/3 व 643 के बीच में कार्ट ट्रक	00	10	04
		643	00	41	30
		642	00	12	61
		सर्वे नंबर 642 व 641/3 के बीच में कार्ट ट्रक	00	16	03
		641/3	00	05	80
		सर्वे नंबर 641/3 व 634/2 के बीच में कार्ट ट्रक	00	06	14
		634/2	00	13	49
		636/3	00	04	28
		636/2	00	37	92
		636/1	00	01	07
		635/1	00	25	58
		सर्वे नंबर 635/1 व 626 के बीच में राज्य मार्ग	00	05	06
		626	00	18	28
		627	00	15	77
		सर्वे नंबर 627 व 529 के बीच में कार्ट ट्रक	00	04	28
		529	00	24	80
		528	00	19	92
		527	00	19	58
		526/1	00	07	55
		526/2	00	07	16

तालुका : रापर		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
11	आदेसर (जारी)	526/3	00	07	27
		525/3	00	10	06
		525/2	00	07	38
		525/1	00	13	97
		524	00	07	90
		523	00	12	95

[फा. सं. आर-31015/39/2008-ओआर-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2008

S.O. 2683(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from Mundra in the State of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab, a pipeline should be laid by HPCL - Mittal Pipelines Limited, (a subsidiary of Guru Gobind Singh Refineries Limited);

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri F. A. Babi, Competent Authority, Mundra Bathinda Crude Oil Pipeline Project, HPCL - Mittal Pipelines Limited, Adipur Camp Office, Plot no-186, Ward No. 3-B, Tagore Road, Adipur – 370 205, Kutch (Gujarat).

HPCL - Mittal Pipelines Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE							
Taluka : RAPAR		District : KUTCH		State : GUJARAT			
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area				
			Hectare	Are	Sq.mtr.		
1	2	3	4	5	6		
1	GOVINDPAR	Nala in Survey number 98	00	07	42		
		98	02	02	16		
		71/2	00	02	02		
		71/1	00	01	11		
		72/2	00	03	76		
		72/1	00	13	64		
		76/3	00	03	81		
		76/2	00	00	50		
		76/1	00	00	50		
		77	00	17	59		
		83	00	57	24		
		66/1	00	10	91		
		85	00	10	42		
		91	00	30	08		
		5/1	00	33	97		
		Asphalted road in between Survey number 5/1 and 14/2	00	24	40		
		14/1	00	00	50		
		12	00	02	38		
		2	DEDARAVA	221	01	89	77
				137	00	35	24
Asphalted road in between Survey number 137 and 136/2	00			07	45		
136/2	00			16	64		
139	00			46	74		
141/2	00			16	25		
142/1	00			07	20		
142/2	00			08	10		
State Highway in between Survey number 221 and 124/3	00			10	08		
124/3	00			09	44		
124/2	00			04	55		
124/1	00			01	42		

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT				
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area				
			Hectare	Are	Sq.mtr.		
1	2	3	4	5	6		
2	DEDARAVA (Contd.)	Nala in Survey number 221	00	08	33		
		125	00	02	08		
		Nala in between Survey number 125 and 221	00	22	79		
		116	00	01	52		
		117	00	30	58		
		106/2	00	02	27		
		105/2	00	11	20		
		104	00	09	56		
		103/2	00	07	88		
		102	00	18	97		
		98	00	01	36		
		83/1	00	13	00		
		83/2	00	36	60		
		80	00	05	30		
		76	00	21	62		
		75	00	09	74		
		74/1	00	10	69		
		74/3	00	16	87		
		3	SAI	Ashphalted Road in between Survey number 892 and 443/2	00	03	28
				443/2	00	13	84
437	00			08	84		
438	00			16	99		
435	00			02	18		
439	00			08	18		
432	00			17	84		
431/1	00			07	19		
Nala in between Survey number 431/1 and 466	00			05	89		
Cart track in between Survey number 466 and 353	00			04	82		
353	00			09	34		
355	00			07	16		
356/1	00			00	26		

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
3	SAI (Contd.)	357/2	00	09	14
		356/2	00	13	34
		362/1	00	01	12
		Cart track in between Survey number 362/1 and 329	00	06	59
		329	00	12	65
		330	00	15	74
		338	00	04	63
		337	00	07	50
		186	00	04	63
		182/1	00	07	81
		181	00	07	14
		179	00	20	56
		195/1	00	00	74
		177/1	00	01	66
		177/2	00	04	15
		176	00	12	34
		165	00	20	48
		124	00	16	49
		123	00	06	36
		121	00	15	10
		120	00	10	91
		112	00	35	12
		111	00	06	13
4	KIDIYA NAGAR	571	00	07	70
		572	00	02	88
		569/1	00	16	02
		1318	04	20	18
		591/1	00	16	45
		591/6	00	10	42
		Cart track in between Survey number 591/6 and 590/3	00	01	76
		590/3	00	04	88

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Acre	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
4	KIDIYA NAGAR (Contd.)	590/2	00	08	48
		589/3	00	04	13
		589/1	00	05	98
		585	00	15	71
		586	00	06	88
		583/1	00	07	07
		583/2	00	11	23
		Nala in between Survey number 583/2 and Village Boundary	00	49	76
		701/2	00	18	08
		701/1	00	22	16
		700	00	01	20
		685	00	43	24
		696/2	00	02	53
		695/1	00	00	28
		694/1	00	25	52
		693/2	00	07	43
		693/1	00	02	30
		691/1	00	11	51
		691/2	00	15	26
		691/4	00	03	49
		743	00	32	08
		811/1	00	07	74
		812/2	00	07	04
		947/2	00	05	11
		947/1	00	07	44
		948	00	09	44
		969	00	37	08
		967	00	38	50
		966	00	18	49
		994	00	14	38
		Asphalted road in between Village Boundary and Survey number 1318	00	09	41

Taluka : RAPAR		District : KUTCH		State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area			
			Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
4	KIDIYA NAGAR (Contd.)	1215	00	44	35	
		1216	00	16	81	
		1217	00	23	90	
		1219/4	00	02	00	
		1189/2	00	06	38	
		Cart track in between Survey number 1189/2 and 1188/2	00	09	41	
		1188/2	00	01	92	
		1187/2	00	07	32	
		1187/1	00	14	95	
		1186	00	17	47	
5	BADALPAR	29	00	08	21	
		26	00	13	02	
		21/1	00	01	08	
6	CHHOTAPAR	92/4	00	11	12	
		91/3	00	00	80	
		91/2	00	14	86	
		84	00	04	74	
		83/2	00	14	09	
7	VEKARA	71	00	00	66	
		73	00	10	33	
		81	00	32	89	
		82	00	24	37	
		129	01	00	13	
8	BHIMASAR	944/1	00	20	82	
		944/2	00	07	26	
		945/1	00	10	81	
		943/2	00	02	75	

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
8	BHIMASAR (Contd.)	946	00	34	88
		947	00	29	27
		951/3	00	17	58
		938/3	00	06	11
		938/1	00	06	83
		952	00	00	50
		938/2	00	07	05
		937	00	04	83
		913/1	00	05	03
		912/2	00	08	50
		909/1	00	09	97
		909/2	00	07	51
		910	00	02	85
		908/3	00	01	48
		908/4	00	00	26
		907	00	04	52
		906	00	01	10
		Nala in between Survey number 906 and 718	00	07	03
		718	00	06	75
		2220/1P	00	50	19
		719	00	02	63
		Asphalted road in between Survey number 719 and 720	00	15	03
		720	00	20	13
		721	00	08	51
		723/2	00	00	50
		795/1	00	00	50
		722	00	07	28
		Cart track in between Survey number 722 and 728/2	00	11	98
		728/2	00	09	84
		728/1	00	09	22
		729	00	15	97
		735/4	00	01	16

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
8	BHIMASAR (Contd.)	790/1	00	45	42
		781/1	00	04	53
		781/2	00	03	59
		782	00	06	62
		780	00	08	96
		810/2	00	08	57
		810/1	00	09	39
		812/1	00	05	65
		814/2	00	14	49
		814/3	00	14	64
		826	00	23	19
		827/1	00	18	89
		828/1	00	07	37
		829	00	02	39
		836/3	00	03	73
		834/1	00	00	50
		834/3	00	01	30
		843/2	00	04	32
		843/1	00	00	50
		845/3	00	08	83
		845/1	00	04	92
		850/1	00	02	36
		853/3	00	05	61
		852/3	00	01	39
		855/2	00	04	41
		855/1	00	07	70
		858/1	00	15	14
		857/3	00	06	90
		857/2	00	29	79
		857/1	00	02	50
		841	00	01	54
		859	00	20	44

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
8	BHIMASAR (Contd.)	860/1	00	08	46
		Nala in Survey number 2220/1P	00	01	70
		Cart track in Survey number 2220/1P	00	02	94
		2191/1	00	10	71
		2190/2	00	03	09
		River in between Survey number 2190/2 and 2185/2	00	04	98
		2185/2	00	10	96
		2185/1	00	03	75
		2183/2	00	09	23
		2182	00	04	07
		Cart track in between Survey number 2182 and 2180/1	00	08	76
		2180/1	00	01	85
		2179/4	00	05	92
		2179/3	00	11	06
		2179/2	00	03	40
		2174/3	00	00	97
		2178/1	00	03	38
		2175/2	00	02	85
		Asphalted road in between Survey number 2175/2 and 2173/1	00	05	10
		2173/1	00	05	16
		2167	00	13	06
		2169	00	12	87
		2161/3	00	01	14
		2161/4	00	03	42
		Cart track in between Survey number 2161/4 and 2154/2	00	03	16
		2154/2	00	02	92
		2154/3	00	01	50
		2152/1	00	12	30
		2151/1	00	00	90

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
8	BHIMASAR (Contd.)	2152/2	00	00	50
		2146/1	00	12	83
		2146/2	00	02	82
		2143/1	00	00	50
		2144/1	00	08	43
		Cart track in between Survey number 2144/1 and 2129/1	00	01	61
		2129/1	00	01	79
		2130/2	00	02	40
		Cart track in between Survey number 2130/2 and 2125/1	00	23	11
		2125/1	00	06	03
		2122/3	00	03	70
		2121/3	00	00	50
		2120/1	00	06	25
		2119/2	00	03	86
		2117/2	00	01	41
		2118	00	03	56
		2116/2	00	06	20
		2115/1	00	09	12
		Cart track in between Survey number 2115/1 and 2106/1	00	04	78
		2106/1	00	08	56
		2112/2	00	01	69
		2110/1	00	03	78
		2110/2	00	02	27
		2107/1	00	36	72
		2211	00	13	78
		2210	00	00	50
		2209	00	08	53
		2055/4	00	00	53
		2056/2	00	03	44
		2055/6	00	03	92

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT				
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area				
			Hectare	Are	Sq.mtr.		
1	2	3	4	5	6		
8	BHIMASAR (Contd.)	2055/8	00	05	10		
		2058/2	00	07	48		
		2054/6	00	05	97		
		2054/5	00	06	20		
		2053/5	00	12	82		
		2052/2	00	05	61		
		2052/1	00	00	50		
		2052/5	00	02	86		
		2051/2	00	08	24		
		2050/2	00	00	55		
		2050/3	00	09	75		
		2049/4	00	04	25		
		2049/3	00	02	15		
		2049/2	00	11	22		
		2048/1	00	07	65		
		2046/2	00	05	91		
		2045	00	09	57		
		2044	00	00	50		
		2043/1	00	11	61		
		2041/1	00	04	01		
		2041/2	00	04	06		
		2040/2	00	40	56		
		2038/5	00	00	50		
		2038/4	00	04	60		
		2038/3	00	01	79		
		2038/2	00	07	70		
		2037/4	00	06	67		
		2037/2	00	02	83		
		9	LAKHAGARH	120	00	00	36
				119	00	10	51
				96	00	27	06

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Acre	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
9	LAKHAGARH (Contd.)	94	00	00	30
		93/1	00	16	20
		93/2	00	03	98
10	BHANGERA - JADUPUR	203	00	13	46
		202/1	00	03	70
		202/2	00	03	43
		Stream in between Survey number 202/2 and 212	00	04	39
		214/2	00	02	89
		214/1	00	17	87
		215/2	00	03	90
		Cart track in between Survey number 215/2 and 225/2	00	05	52
		225/2	00	05	48
		225/1	00	12	12
		218/4	00	08	21
		219/1	00	00	36
		219/2	00	10	84
		220	00	03	38
		182	00	00	44
		181	00	06	55
		180	00	07	82
		Nala in between Survey number 180 and 241	00	01	92
		241	00	26	41
		170/1	00	12	49
		171/1	00	06	30
		171/3	00	14	83
		171/4	00	03	46
		Metalled road in Survey number 241	00	03	74
		142	00	15	53
		143/2	00	01	03
141	00	10	75		
139	00	18	44		

Taluka : RAPAR		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
11	ADESAR	664	00	14	28
		663	00	04	56
		665/1	00	18	42
		656	00	17	78
		651/1	00	10	38
		650	00	10	38
		649	00	06	32
		646	00	07	62
		645/1	00	03	94
		645/2	00	08	11
		645/3	00	05	16
		644/3	00	03	00
		Cart track in between Survey number 644/3 and 643	00	10	04
		643	00	41	30
		642	00	12	61
		Cart track in between Survey number 642 and 641/3	00	16	03
		641/3	00	05	80
		Cart track in between Survey number 641/3 and 634/2	00	06	14
		634/2	00	13	49
		636/3	00	04	28
		636/2	00	37	92
		636/1	00	01	07
		635/1	00	25	58
		State Highway in between Survey number 635/1 and 626	00	05	06
		626	00	18	28
		627	00	15	77
		Cart track in between Survey number 627 and 529	00	04	28
		529	00	24	80
		528	00	19	92
		527	00	19	58
		526/1	00	07	55
		526/2	00	07	16

Taluka : RAPAR		District : KUTCH		State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area			
			Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
11	ADESAR (Contd.)	526/3	00	07	27	
		525/3	00	10	06	
		525/2	00	07	38	
		525/1	00	13	97	
		524	00	07	90	
		523	00	12	95	

[F. No. R-31015/39/2008-OR-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.